



Vaswani Industries Limited

POWER • SPONGE IRON • STEEL

• CIN - L28939CT2003PLC015964 • GSTN 22AABCV9564E1ZB

Ref: VIL/BSE & NSE/2024-25/JUNE/17

Date: 02.06.2025

To,

The Manager (Listing)

BSE Limited

The Secretary, Listing Department

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai(M.H.) - 400001

BSE Script Code:533576

The Manager (Listing)

National Stock Exchange of India Ltd.

The Manager, Listing Department

Exchange Plaza, 5th Floor,

Plot No.C/1, G Block,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai-400051.

NSE Symbol: VASWANI

Sub: Newspaper Publication – Intimation under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby submit copies of the newspaper advertisements published on June 1, 2025, in *The Free Press Journal* (English edition, Mumbai) and *Amrit Sandesh* (Hindi edition, Raipur). These advertisements pertain to the audited financial results of the Company for the quarter and financial year ended March 31, 2025.

The aforementioned advertisements are also available on the Company's website at www.vaswaniindustries.com.

You are requested to take the above information on record.

Thanking you

Yours Sincerely

For, **Vaswani Industries Limited**

Sakshi Agrawal

(Company Secretary & Compliance officer)

Place: Raipur

Regd. Office & Factory : Bahesar Road, Near Cycle Park, Village Sondra, Siltara Phase-II, Raipur (C.G.) Pin - 493 221
Mob.: 09977403360/ 90, **E-mail :** jhaji@vaswaniindustries.com, saurabh@vaswaniindustries.com, store@vaswaniindustries.com,
Website : www.vaswaniindustries.com

HINDUSTAN HARDY LIMITED						
Regd. Office: Plot No. C-12, M.I.D.C. Area, Ambad, Nashik - 422 010 Web Site No. www.hhardsys.com, Email ID- info@hhardsys.com, CIN- L29300MH1982PLC028498 Contact -Tel.-0253-2382118, TeleFax- 91-0253-2382528						
Financial Results For the Quarter and year ended -31-03-2025.						
STANDALONE RESULTS :			[Rs. In Lakhs Except EPS]			
Sr. No.	PARTICULARS	Quarter Ended			Year Ended	
		31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	2532.99	1996.65	1809.30	8196.68	6814.00
2	Net Profit(+)/(Loss)(-) from ordinary Activities after tax	263.52	122.44	126.69	659.01	486.93
3	Total Other Comprehensive income/(loss)-Net	(3.57)	(7.51)	3.18	1.07	21.83
4	Paid up equity share capital-(Face value of Rs. 10/-each)	149.85	149.85	149.85	149.85	149.85
5	Reserves excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous accounting year.	-	-	-	-	-
6	Earning Per Share (EPS) (before Extraordinary items) (of Rs.10/-each -not annualised):					
	(a) Basic	17.59	8.17	8.45	43.98	32.50
	(b) Diluted					
7	Earning per share (after extraordinary items) (of Rs.10/-each)-not annualised :					
	(a) Basic	17.59	8.17	8.45	43.98	32.50
	(b) diluted					
Note : 1 The above result were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 30-05-2025. 2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites.(www.bseindia.com)						
By Order of the Board For Hindustan Hardy Limited Ms. Devaki Saran Executive Director & CFO DIN-06504653						
Place : Nashik Date : May 30, 2025						

PUBLIC NOTICE


Notice is hereby given that the client, MRS. MALTI NANDMAL MAURYA, joint owner along with her husband Mr. Nandlal B. Maurya, in respect of Gala no.A/203 and A/204 and also bonafide member to Shubh Inventure Industrial Premises Co-Op.Society Ltd.,situated at Plot No.24/1, Gokhware, Village-Vallab, Taluka Vasa, Vasai (East), 401208 and within the Sub-Registration office at Vasa I to 6, within Vasai-Virar City Municipal Corporation and the society registered under the Maharashtra Co Operative Societies Act,1925 of the said Society is dated 20/10/2014 TNAVSIGN(I/O)/1778/2014 dated 20/10/2014.

The client intended to make an application to the said Society for issue of DUPLICATE SHARE CERTIFICATES, the Original share Certificates of which, vide Share Certificate no. 33 and 34, Membership Registration No.33 and 34, Share distinctive No.161 to 165 (Both inclusive) and Share distinctive No.166 to 170 (both inclusive) respectively, have lost/misplaced/not traceable and accordingly my client lodged NC.Complaint before Senior Inspector of Police at Valsad Police Station in Vasa (East), vide Registered Complaint ID No. zzzzdxLXIF, dated 05/02/2025.

Any person/s who finds the said Original Share Certificates and if any person and/or Banks, Financial institution having any claim or right in respect of the said Properties, please intimate to the undersigned within 15 days from the date of the publication of the said public notice, failing which such claim, if any shall be deemed to have been waived and/or abandoned and accordingly my client agrees to execute duplicate share certificates to their said member.

Place: Vasai, Date: 01.06.2025

Shri. Umashank H. Moolya
Advocate
Shop No.3, New Yash CHS, Ltd.,
Chakradhar Nagar, Nallasopara (W),
Dist: Paghur, Pin 98010893.
(Mobile. Phn.9960186917).



Branch Office: ICICI Bank Ltd., Ground Floor, Acrturi Centre, MIDC, Near Telephone Exchange, Opp Acrturi Star, Andheri East, Mumbai- 400093

PUBLIC NOTICE - TENDER CUM E-AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

[See proviso to Rule 8 (6)]

Notice for Sale of Immoveable Asset(s)

This E-Auction Notice for Sale of Immoveable Asset/s Assets is being issued by ICICI Bank Ltd. (on underlying pool assigned to ICICI Bank by Dewan Housing Finance Ltd. (DHFL) in relation to the enforcement of security with respect to a Housing Loan facility granted pursuant to a Loan Agreement entered into between DHFL and the following Borrower/ Borrowers/ Co-Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantor/ Guarantors under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower/ Borrowers/ Co-Borrower/ Co-Borrowers/ Guarantor/ Guarantors that the below described immovable property mortgaged/ charged to the Secured Creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Ltd. will be sold on 'As is where is', 'As is what is' and 'Whatever there is' basis as per the brief particulars given below:

Sr. No.	Name of Borrower(s)/ Co-Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Loan Account No.	Details of the Secured Asset/ Assets with known encumbrances, if any	Outstanding amount	Reserve price Earnest Money Deposit	Date and time of property inspection	Date and time of E-Auction
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
1.	Mr. Vishal Vishwanath Ghatge (Borrower)/ Mr. Gurpreet Vishal Ghatge (Co Borrower) Lan No QZTNE00005036423	Flat No. 408, 4th Floor, Wing A, Building No 35, Building Name-Barasat, Karam Residency, Sector 2, Dhasoi, Shahapur, Kinhavali Road, Shahpur- 421604 Measuring an Area of 255.98 Sq Feet Carpet Area	Rs. 16,87,770/- As on May 02, 2025	Rs. 3,00,000/- Rs. 30,000/-	June 09, 2025 From 11:00 AM To 02:00 PM	June 21, 2025 From 11:00 AM onward

The online auction will take place on the website (URL Link-<https://disposalhub.com>) of the E-Auction agency Ms. Nexxen Solutions Private Limited. The recipients of this Notice are given a last chance to pay the total dues with further interest June 20, 2025 before 05:00 PM failing which, the Secured Asset/s Assets will be sold as per schedule.

The prospective Bidder/ Bidders must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD) (Refer to column E) at ICICI Bank Ltd. Level 3-5, 74 Techno Park, Opp SEEPZ Gate No. 02, Marol MIDC, Andheri East, Mumbai 400 093 on or before June 20, 2025 before 02:00 PM Thereafter, he/ she/ they need to submit the offer/ offers through the website mentioned above on or before June 20, 2025 before 05:00 PM, along with a scanned copy of the Bank acknowledged DD as a proof of payment of the EMD. In case, the prospective Bidder/ Bidders is/ are unable to submit the offer/ offers through the website then a signed copy of the tender documents may be submitted at ICICI Bank Ltd. Level 3-5, 74 Techno Park, Opp SEEPZ Gate No. 02, Marol MIDC, Andheri East, Mumbai- 400 093 on or before June 20, 2025 before 05:00 PM. The Earnest Money Deposit DD/ PO should be from a Nationalised/ Scheduled Bank in favour of 'ICICI Bank Limited' payable at Mumbai.

For any further clarifications regarding the inspection, Terms and Conditions of the E-Auction or submission of tenders, contact ICICI Bank Employee Phone No. 8104548003/ 9168688529.


Please note that the Marketing agencies 1)ValueTrust Capital Services Private Limited, 2. Augero Assets Management Private Limited 3. Matex Net Pvt. Ltd. 4. Finvin Estate Deal Technologies Pvt Ltd 5. Girsansoft Pvt Ltd 6. Hecta Prop Tech Pvt Ltd 7. Arca Emart Pvt Ltd 8. Novel Asset Service Pvt Ltd 9. Nobroker Technologies Solutions Pvt Ltd., have also been engaged in facilitating the sale.

The Authorised Officer reserves the right to reject any or all of the bids without furnishing any further reasons. For detailed Terms and Conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s


Date: May 31, 2025

Place: Mumbai

Authorized Officer
ICICI Bank Limited


 बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI	Nashik Zonal Office 1st Floor, Main Trimbak Road, Satpur Industrial Estate, Nashik 422007						
NOTICE FOR PUBLIC E-AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS / ARTICLES							
<p>Whereas, the authorized officer of BANK issued Sale notice(s) calling upon the borrower to clear the dues in gold loan availed by them. The borrower had failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned will conduct online auction of the gold ornaments strictly on "As is What is Basis" & "Whatever there is Basis" & "Without recourse Basis". The auction will be conducted online through https://boiegold.auctiontiger.net on 18-06-2025 at 11:00 AM to 04:00 PM.</p>							
Sr. No.	Borrower - LAN	Gross Weight	Net Weight	Date of Inspection & EMD	Reserve Price	EMD account details	Branch Contact Details
1	Branch : Shendra I E A/c Name : Mr. Ravishankar Mishra A/c No. : 068577610000525	10.400	7.790	17-06-2025 Rs. 6030/-	Rs. 60,300/-	A/c Name : Bank of India Shendra I E A/c No. : 068590200000033 IFSC : BKID0000685	Bank of India Shendra Industrial Estate Gat No. 326, Near Jagtap Petrol Pump, Opp. Shendra MIDC, Kumbhephal Village, Tal. & Dist. Chhatrapati Sambhajanagar Telephone : 0240-2622162 Email : shendraindustrialestate.pune@bankofindia.co.in
2	Branch : Adgaon Naka A/c Name : Mr. Nitin Madhukar Pendharkar A/c No. : 081077610002877	35.000	34.000	17-06-2025 Rs. 29100/-	Rs. 2,91,000/-	A/c Name : Bank of India Adgaon Naka A/c No. : 081090200000033 IFSC : BKID0000810	Bank of India Adgaon Naka Branch. Plot No. 288/1b, Shivganga Sankul, Near Swami Mandir, Mumbai-Agra Road, Adgaon Naka, Tal/Dist-Nashik Telephone : 0253-2512183 Email : AdgaonNaka.Pune@bankofindia.co.in
3	Branch : Rahuri A/c Name : Abhijit Govind Khade A/c No. : 065977610003793	77.900	53.900	17-06-2025 Rs. 42200/-	Rs. 4,22,000/-	A/c Name : Bank of India Rahuri A/c No. : 065990200000033 IFSC : BKID0000659	Bank of India Rahuri Branch Guidagad Complex, Pragati Vidyalay Road, S.No. 417/2/4 And 417/2/3/2, Plot No. 1 And 2, A/P Taluka Rahuri, Dist. Ahmadnagar Telephone : 02426- 232161 Email : Rahuri.Pune@bankofindia.co.in
TERMS & CONDITIONS of E Auctions are as under :							
1. Bidders are required to register on https://egold.auctiontiger.net . 2. It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the ornaments and specification before submitting the bid. The bidder may inspect the ornaments in consultation with the branch manager. Date of inspection of ornaments 17-06-2025 from 03.00 PM to 05.00 PM with prior appointment with respective branches. 3. Participation and bidding in the auctions on the website shall be deemed that the bidder has accepted the T&C's pertaining to the auction and is aware of all the Taxes and Duties, and other extraneous factors and the principle of caveat emptor shall apply. It shall also imply that the bidder has carefully gone through the terms and conditions, including amendments, if any, prevailing at the time of auction. No objections or complaints will be entertained once the bid is placed. 4. Neither the Branch/Bank nor E Auction service provider will be held responsible for any Internet Network Problem/Power failure any other technical lapses etc. In order to ward off such contingent situation, the interested bidders are requested to ensure that they are technically well equipped with adequate power back up etc. for successful participation in E Auction event. 5. Bank/Seller/e-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) reserves the right to modify / withdraw any of the Business rules, Terms & conditions of Auction at any point of time during the auction proceedings as it may deem fit and proper. 6. In case of any discrepancy English Version of the Notice will be treated as authentic. Please contact E-Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) on 919023724780 or 916351896640 or egold@auctiontiger.net for more information. Visit https://egold.auctiontiger.net for detailed terms & conditions.							
Place : Nashik Date : 31-05-2025							
AUTHORISED OFFICER, BANK OF INDIA							

 Axis Bank Limited Registered Office:- Axis Bank Limited, "Trishul", 3rd Floor, OppSamartheshwar Temple, Near Law Garden Ellisbridge, Ahmedabad – 380006. Branch Address :- Axis Bank Ltd, 5th Floor, Gigaplex, NPC – 1, TTC Industrial Area, Mughalsan Road, Airoli, Navi Mumbai – 400 708.					
E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY					
E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002					
Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged / charged to the secured creditor, the Physical Possession (as detailed below) of which has been taken by the Authorised Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" and "No recourse basis" for recovery of the amount (Shown below in respective column) due to the Axis Bank secured creditor from respective borrower(s) and Guarantor(s) shown below. The Reserve Price and the Earnest Money deposit of respective properties as shown below in respective column for recovery of the amount (Shown below in respective column) due to the Axis Bank secured creditor from respective borrower(s) and Guarantor(s) shown below. The Reserve Price and the Earnest Money deposit of respective properties as shown below in respective column;					
Sr. No	Name of Borrower Mortgager	DESCRIPTION OF PROPERTY	RESERVE PRICE	Auction Date & Time:	Outstanding Dues (in Rs.)
			EMD Price		
1.	Twinkle Realtors Private Limited Now re-named as Mirah Realtors Private Limited (Borrower) Mirah Décor Limited (Co-Borrower) Twinkle Enviro-Tech Private Limited (Co-Borrower) Mr. Gaurav Goenka (Co-Borrower) Mr. Omprakash Goenka (Co- Borrower) Mrs. Kiran Goenka (Co-Borrower) Mr. Anand Shetty (Co-Borrower) Mr. Prakash Utekar (Co- Borrower) Mr. Venkatraman Natarajan (Co-Borrower) Mr. Omprakash Goenka & Son HUF (Co- Borrower) Karta Mr. Omprakash Goenka 208, Parvati Industrial Estate Sun Mill Compound Lower Parel (W), Mumbai – 400013 317/318, Parvati Industrial Estate Sun Mill Compound Lower Parel (W), Mumbai- 400013 101, 10th floor, Somerset House A-Wing, Warden Road Grant Road (W), Mumbai- 400026 1201, Victoria Classic Nr. Asha Nagar, Off P.K.Road Mulund (W), Mumbai 400 38, 4th Floor, Shiv Kripa Hsg, Soc, New Prabhadevi, Mumbai – 400025 Bhakti Park, Wadala Link Road Mumbai – 4	All the piece and parcel of Immovable property located at Unit No.201, 2nd Floor of Parvati Industrial Premises Co-Operative Society Ltd, New Sun Mill Compound, Lower Parel, Mumbai – 400013 Admeasuring – 1401 SQ.Ft and Constructed o Plot of Land as Mentioned Below: All the piece or pacle of land or ground situated lying and being at Village Parel, Parel Division in Granter Bombay in the Registration Sub-District and district of Bombay City Bearing Survey No. 6/160 (Part) Lower Parel Division and 861____ Admeasuring 2458 SQ. Meters or thereabouts and assessed by Municipal Assessor and collector and bounded as follows: On or towards the East: Shah & Nahar Industrial Compound On or towards the West: Kohinoor Industrial Estate On or towards the North: Adhyaru Industrial Estate On or towards the South: Railway Yard	Rs. 3,20,27,920 (Rupees Three Core Twenty Lac Twenty seven Thousand Nine hundred Twenty Only)	21st June 2025 between 11 to 12 Pm	Rs. 4,19,54,109.00 (Rupees Four Crore Nineteen Lakh Fifty Four Thousand One Hundred Nine Only) as on 15 May, 2025
			Rs. 32,02,792 (Rupees Thirty Two Lac Two Thousand Seven Hundred Ninety two only)	Last Date & Time for Bid Submission : 20th June 2025 up to 05:00 P.M.	
2.	PADHYAR B C DHARMISHTHABEN B PADHYAR MOSALI MAIN BAZAR LAT MANGROL MOSALI SURAT SURAT GUJARAT 394241 FLAT NO 105 1ST FLOOR C WING ESSENZA MAHAJAN WADI SERVICE ROAD W E HIGHWAY VILLAGE MAHAJAN WADI , MIRA ROAD EAST THANE - 401107	All the piece and parcel of FLAT NO 105 , 1ST FLOOR, C - WING , ESSENZA MAHAJAN WADI , SERVICE RD, W E HIGHWAY VILLAGE MAHAJAN WADI, MIRA ROAD EAST , THANE -401107 ADMESURING AREA :670 CARPET AREA	Rs. 8719320 (Rupees Eighty seven Lac nineteen thousand three hundred twenty only)	21st June 2025 between 11 to 12 Pm	Rs. 1,24,54,299.00 (Rupees One Crore Twenty Four Lakh Fifty Four Thousand Two Hundred Ninety Nine Only) as on 13 May, 2025
			Rs. 871932 (Rupees Eight lac seventy one thousand nine hundred thirty two only)	Last Date & Time for Bid Submission : 20th June 2025 up to 05:00 P.M.	
3.	CHETAN MOHANLAL BHANSALI BHAVESH MOHANLAL BHANSALI KETAN MOHANLAL BHANSALI RATNABEN MOHANLAL BHANSALI 201 SONA APARTMENT, GOKHALE ROAD, NEAR RAMESH TAIOR BHAWANI SHANKAR, DADAR WEST, MUMBAI MAHARASHTRA 400028 Flat No. 3& 4, 2nd Floor, Sona Apartment, Gokhale Road, Bhushani Shankar Road, Dadar, Mumbai - 400028	All the piece and parcel of FLAT NO 3 AND 4, 2ND FLOOR, SONA APARTMENT, GOKHALE ROAD, BHUSHANI SHANKAR ROAD, DADAR, MUMBAI -400028. AREA ADMEASURING:- 416.60 SQ. FT. CARPET (FLAT NO. 3) & 416.60 SQ. FT. CARPET (FLAT NO. 4)	Rs. 25518320 (Rupees Two Core Fifty five lac eighteen thousand three hundred twenty only)	21st June 2025 between 11 to 12 Pm	Rs. 5,80,08,016.00 (Rupees Five Crore Eighty Lakh Eight Thousand Sixteen Only) as on 5th March 2025
			Rs. 2551832 (Rupees Twenty five lac fifty one thousand eight hundred thirty two Only)	Last Date & Time for Bid Submission : 20th June 2025 up to 05:00 P.M.	
4.	LOKESH RAJESHWAR TYAGI 101, 1ST FLOOR, PUSHPKAMAL, HAPPY HOME CHS, NEHRU ROAD, PLOT NO 168, VILE PARLE EAST, MUMBAI- 400057. MAHARASHTRA FLAT NO. 1, 1ST FLR, HORIZON IN HAPPY HOME SOC NEHRRU RD VILE PARLE EAST MUMBAI 400057. SOFT TOUCHAVIHATION PVT LTD, 101, 1ST FLOOR, PUSHP KAMAL, HAPPY HOME CHS, NEHRU ROAD, PLOT NO 168, VILE PARLE EAST, MUMBAI400057. MAHARASHTRA.	All the piece and parcel of FLAT NO. 1ST FLOOR, IN THE BUILDING KNOWN AS HORIZON BUILDING "HAPPY HOME CO OP HSG SOC LTD", PUSHPKAMAL, SITUATE LYING AND BEING AT PLOT NO. 168, BEARING CTS NO 1193, NEHRU ROAD, NEAR GUJARAT SOCIETY, VILE PARLE EAST, MUMBAI – 400057. WITHIN THE REGISTRATION AND SUB DISTRICT OF MUMBAI CITY & MUMBAI SUBURBAN ADMEASURING AREA:- 167.68 SQ. MTRS. BUILT UP AREA & STILT CAR PARKING NO-1 ADM AREA 16.50 SQ MTRS BUILTUP AREA.	Rs. 45413068 (Rupees Four Core Fifty Four Lac Thirteen Thousand sixty eight only)	21st June 2025 between 11 to 12 Pm	Rs. 9,10,28,181.00 (Rupees Nine Crore Ten Lakh Twenty Eight Thousand One Hundred Eighty One) as on 11th March,2025
			Rs. 4541306.8 (Rupees Fourty Five Lac forty one thousand three hundred Seven only)	Last Date & Time for Bid Submission : 20th June 2025 up to 05:00 P.M.	
Contact Person: Authorized Officer: Hareesh Gowda, E-Mail ID: hareesh.gowda@axisbank.com Contact 9594597555					
For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. https://www.axisbank.com/auction-retail and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankauctions.com The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/s.C1 India Private Limited at their web portal https://www.bankauctions.com . Also note that the said sale is subject to outcome of Securitization Application filed before Debt Recovery Tribunal, if any. For any other assistance, the intending bidders may contact authorized officers During Office Hours. The bid is not transferable. This Notice should be considered as 15 Days' Notice to the Borrowers under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002. Bid Incremental Amount are Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand Only) For each Account , VENUE For Bid Submission : Axis Bank Ltd., 5th Floor, Gigaplex, NPC – 1, TTC Industrial Area, Mughalsan Road, Airoli, Navi Mumbai – 400 708 Inspection will be subject to the prior Appointment Date: 01.06.2025, Place: Mumbai					
sd/- Authorised Officer, Axis Bank Ltd.					

<div>  <div> REDMAX FOOTWEARS LIMITED (Formerly Known as Viaan Industries Limited) Registered office: Saisha Bungalow No. 10/87, Mhada, SVP Nagar, Janki Devi School Road, Versova, Andheri West, Mumbai – 400053 Website: www.redmaxindia.com, Tel No.: +91 9891199159, 011 66665522, Email: cs@redmaxindia.com / accounts1@redmaxindia.com CIN No: 115201MH1982PLC291306 </div> </div>						
Extracts of the Audited financial statements for the quarter and year ended March 31, 2025 (Amount in Lakhs)						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31/03/2025 (Un - audited)	31/12/2024 (Un - audited)	31/03/2024 (Un - audited)	31/03/2025 (Audited)	31/03/2024 (Audited)
1.	Total Income from Operations	0.00	2.20	(0.28)	2.20	0.00
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	(8.63)	(3.05)	0.00	(22.14)	(27.69)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(8.63)	(3.05)	0.00	(32.14)	(27.69)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	(8.63)	(3.05)	0.00	(32.14)	(27.69)
5.	Total Comprehensive Income	(8.63)	(3.05)	0.00	(32.14)	(27.69)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 1/- each)	100	100	100	100	100
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year					
8.	Earnings Per Share (of Rs. 1/- each) (for continuing and discontinued operations)					
	1. Basic:	(0.09)	(0.03)	0.00	(0.32)	(0.28)
	2. Diluted:	(0.09)	(0.03)	0.00	(0.32)	(0.28)

Note:

- The above statement of Standalone Audited Financial Result was reviewed by the audit committee and approved at the Board Meeting held on 30.05.2025. The Statutory Auditors of the Company have carried out an audit of the above results for the year ended March 31, 2025. The Auditors' conclusion on quarterly financial results and opinion on year to date financial results of the company is unmodified.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as approved by the Audit Committee and Board of Directors at their meeting held on 30th May, 2025. The full format of the Audited Financial Results is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and also on the website of the Company on www.redmaxindia.com
- The above results are in compliance with Indian Accounting Standards (INDAS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.
- The figures for the corresponding previous period have been regrouped / reclassified wherever necessary, to make them comparable. The figures of last quarters are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial years and the published year to date figures up to the third quarter of the respective financial years.



For REDMAX FOOTWEARS LIMITED
 (Formerly Known as Viaan Industries Limited)
 Sd/-
Hemant Jindal
 (Managing Director)
 DIN: 00238742

Date: 31.05.2025
Place: Delhi

VASWANI INDUSTRIES LIMITED						
CIN: L28939CT2003PLC015964						
Regd. Office :BAHESAR ROAD, NEAR CYCLE PARK, VILL -SONDRA PHASE-II, INDUSTRIAL AREA, SILTARA RAIPUR (C.G.) 493221						
Audited Standalone Financial Results for the Period Ended 31.03.2025 (Rs. in Lakhs)						
S. NO.	Particulars	For the Quarter ended			Year ended	
		31-Mar-25	31-Dec-24	31-Mar-24	31-Mar-25	31-Mar-24
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
I	Revenue from operations:	11,540.24	10,233.50	9,036.10	41,163.59	38,934.41
II	Other Income	152.44	31.63	59.74	237.17	166.40
III	Total Income from Operations	11,692.68	10,265.13	9,095.84	41,400.76	39,100.81
IV	EXPENSES					
	a. Cost of materials consumed	7,821.32	7,928.35	6,146.79	30,082.44	28,992.09
	b. Cost of traded goods sold	995.33	1,175.14	1,039.05	3,164.69	2,458.07
	c. Changes in inventories of finished goods	145.05	(914.28)	(136.43)	(497.35)	(290.50)
	d. Employees benefits expenses	380.53	327.72	298.52	1,301.23	1,055.47
	e. Finance costs	363.88	201.48	162.18	799.11	770.73
	f. Depreciation and amortisation expenses	111.40	140.82	94.72	439.68	376.08
	g. Other Expenses	1,210.74	1,154.14	1,027.31	4,441.17	4,506.33
	Total expenses (a+b+c+d+e+f+g)	11,028.25	10,013.38	8,632.12	39,730.97	37,868.25
V	Profit / Loss before exceptional Items & tax	(II+IV)	664.43	251.75	463.72	1,669.80
VI	Exceptional items					
	a) Write off of Mat Credit Entitlement	188.04	-	-	188.04	-
	b) Loss on buy back of share held as Investment	164.91	-	-	164.91	-
	Total Exceptional items	VI	352.95	-	352.95	-
VII	Profit / Loss before and tax	VI+V	311.48	251.75	463.72	1,316.85
VIII	Tax Expense					
	a) Current Tax	69.13	(130.00)	131.20	222.43	365.01
	b) Deferred Tax	43.66	204.76	22.05	233.99	(35.75)
IX	Profit / (Loss) for the period	VII-VIII	198.70	176.98	310.46	860.43
X	Other comprehensive Income					
	A. (i) Items that will not be reclassified to profit and loss:					
	(a) Remeasurement Gain/(Loss) on post-employment defined benefit plans	(4.16)	-	(2.94)	(4.16)	(2.94)
	(b) Fair value changes of investment in equity	30.97	-	-	30.97	-
	(ii) Income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss	(3.87)	-	-	(3.87)	-
	B. (i) Items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
	(ii) Income tax relating to items that will be reclassified to profit or loss	-	-	-	-	-
	Total Comprehensive Income for the period	22.94	-	(2.94)	22.94	(2.94)
XI	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit (Loss) and Other comprehensive Income for the period]	IX+X	221.64	176.98	307.52	860.43
XII	Paid-up Share Capital (par value Rs. 10/- each fully paid up)		3134.62	3,134.62	3,000.00	3,134.62
XIII	Earnings per equity share (Par value Rs. 10/- each)					
	i) Basic	0.65	0.58	1.03	2.81	3.01
	ii) Diluted	0.65	0.58	1.03	2.81	3.01
BY ORDER OF THE BOARD FOR, VASWANI INDUSTRIES LIMITED Sd/- YASHWANT VASWAI Whole Time Director DIN : 01627408						
Sd/- SATYA NARAYAN GUPTA Director DIN : 09517381						

